

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 1970/मघा 7, 1891
 No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 1970/MAGHA 7, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 27th January 1970

S.O. 379.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all their language versions to be of the description specified against each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Indian News Review No. 1110	121.00M	Films Division, Govt. of India, Peddar Road, Bombay-26.	24-	Film dealing with news and cur- rent events. Documentary Film
2.	Young Citizens	518.00M	Do.		

1	2	3	4	5	6
3.	Jitna Chotta Ho Parivar	213.36M	Triveni Pictures, Theosophical Colony, Juhu, Bombay-54.	Shri Sant Dhawan, Triveni Pictures, Theosophical Colony, Juhu, Bombay-54	Film intended for educational purposes.

[No. F. 28/1/70-FP App. 1416]

K. K. KHAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण, मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 27 जनवरी, 1970

एस० नो० 379.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० नो० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार फिल्म सलाहकार बोर्ड बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करनी है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है ।
-------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------	--

1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1110	121.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, 24-पेडर रोड,	भारत सरकार, बम्बई-26	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म
2	यंगसिटिफण्ड	518.00 मीटर	तथैव		डाकुमेंट्री फिल्म

1	2	3	4	6	6
3	जितना छोटा हो परिवार	213.36 मीटर	त्रिवेणी पिक्चर्स थिओसोपलिकल कालोनी, जुहु, बम्बई-54	श्री संत घवन, त्रिवेणी पिक्चर्स, थिओसोपलिकल कालोनी, जुहु, बम्बई-54	शिक्षा सम्बन्धी फिल्म

[सं. फा० 28/1/70-एफ० पी०/परिशिष्ट 1416]

के० के० खान, अवर सचिव ।

